



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25—जुलाई 31, 2009 (श्रावण 3, 1931)

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25—JULY 31, 2009 (SRAVANA 3, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2009

संख्या एन-15/13/1/16/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 जून, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आंध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आंध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

‘आंध्र प्रदेश राज्य में अनंतपुर जिले में स्थित ‘धर्मवरम’ के नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र।’

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 17 जून 2009

संख्या एन-15/13/1/6/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 जुलाई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आंध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आंध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

‘आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले के श्रीकालहस्ती मण्डल में स्थित राचगुन्नेरी, कापूगुन्नेरी, चेरलापल्ले, चेल्लापालेम, उरुण्डूर, मड्डीलेडु, इसुकागुण्ट अम्मापालेम, पुल्लारेड्डी, कनडिगा, चुक्काला, नीडिगल्लु, नारायणापुरम, टी.एम.वी. कनडिगा राजस्व गांव, येरपाडु मण्डल में स्थित मेरलापाका राजस्व गांव तथा तोट्टमबेडु में स्थित तंगेल्लापालम, पेद्दाकन्नावी, सांबय्यापालेम, बसवय्यापालेम, चेट्टयतूर राजस्व गांव।’

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या एन-15/13/16/1/2009-यो. व. वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 जुलाई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

क्र. सं.	राजस्व भाग	हदबस्त संख्या	जिला
1.	बिलासपुर	146	गुडगांव
2.	पथरेडी	143	गुडगांव
3.	भौडाकलां	134	गुडगांव
4.	चौमा	62	गुडगांव
5.	धूमसपुर	86	गुडगांव
6.	सिंधरावली	139	गुडगांव

आर. सी. शर्मा  
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

जयपुर, दिनांक 5 जून 2009

संख्या: 15/यू/11/पीटीएमआर-नियुक्ति/एसएमसी/08 कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक: 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में मुख्यालय के पत्र संख्या Pt. File No. U-13/12/13/2005-med.1/PTMR dated 09-09-08 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं, इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टरों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक (एक वर्ष के लिए) या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, जयपुर (राजस्थान) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. उमेश चित्तौड़ा, चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, कोटा	10.06.2009 से 09.06.2010	कोटा
		भवानीमंडी
डॉ. जे. एल. गार्गिया, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर	10.06.2009 से 09.06.2010	अजमेर
		गुलाबपुरा
		किशनगढ़
डॉ. प्रदीप गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं सम्पर्क अधिकारी, क. रा. बी. मिनी चिकित्सालय, भिवाडी (अलवर)	10.06.2009 से 09.06.2010	ब्यावर
		भिवाडी
		अलवर
		बहरोड

निशा ढीगरा  
राज्य चिकित्सा आयुक्त, जयपुर

## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्रम मंत्रालय)

चेन्नै-600014, दिनांक 23 जून 2009

सं. क.म.नि / रा.कार्या./अ.कें.आ.( त.नाडु एवं केरल )/ मि.सं. टी.एन/01/2009  
दिनांक : 23.06.2009 ..... जहाँ अनुसूची - I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है ( कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ) 1952 का 19 ( की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहा है जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है ( जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है )।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2 ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार / केन्द्रीय सरकार / केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है , के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची - II की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है ( जैसा कि संलग्न अनुसूची एक में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ) ।

सं. क.म.नि / रा.कार्या./अ.कें.आ.( त.नाडु एवं केरल )/ मि.सं. टी.एन/01/2009  
सा.का. .... जहाँ अनुसूची - I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का नियम 19 ) की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है ( जिसे इसमें इसके पश्चात योजना कहा गया है ) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त , चेन्नै ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है , तीन वर्ष की अवधि के लिए संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है ।

**अनुसूची - II**

1. उक्त स्थापना के संबंध में प्रत्येक नियोक्ता ( जिसे इसके पश्चात नियोक्ता कहा गया ) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समय - समय पर निर्दिष्ट ऐसी विवरणियों संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजेंगे तथा ऐसी राशि रखेंगे तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेंगे ।
2. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा ( 2 क ) के खण्ड ( क ) के अंतर्गत समय - समय पर निर्दिष्ट ऐसे निरीक्षण प्रभार प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के भीतर भुगतान करेंगे ।
3. लेखाओं का रखरखाव , रिटर्न प्रस्तुत करना , बीमा किस्तों का भुगतान , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभार के भुगतान सहित सामूहिक बीमा योजना में सम्मिलित प्रशासन संबंधी सभी व्ययों को नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा ।
4. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार / केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अनुमोदित तथा यथासंशोधित एवं अधिकांश कर्मचारियों की भाषा में उसके प्रमुख बातों के अनुवाद सहित सामूहिक बीमा योजना के नियमों की प्रति स्थापना के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे ।
5. यदि कोई कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त स्थापना की भविष्य निधि के पहले से ही सदस्य है और उनकी स्थापना में नियोजित किया जाता है नियोक्ता उन्हें तत्काल सामूहिक बीमा योजना का सदस्य बनाकर भारतीय जीवन बीमा निगम को उसकी आवश्यक किस्त का भुगतान करेंगे ।
6. यदि उक्त योजना के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में वृद्धि की जाती है तो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों में वृद्धि की व्यवस्था करेंगे जिसमें उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से भी सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ अधिक अनुकूल होंगे ।
7. सामूहिक बीमा योजना में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर योजना के अंतर्गत देय राशि कर्मचारियों को उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त करने पर देय राशि से कम हो तो नियोक्ता , शेष भुगतान राशि कर्मचारी के नामिति( यों ) विधिक वारिस ( सों ) को हरजाने के रूप में भुगतान करेंगे ।
8. संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना सामूहिक बीमा योजना के प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा जहाँ किसी भी संशोधन से कर्मचारी के पक्ष में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को उनका दृष्टिकोण समझाने का यथोचित अवसर देंगे ।
9. अतः किसी कारणवश उक्त स्थापना के नियोक्ता भारतीय जीवन बीमा निगम के सामूहिक बीमा योजना के , जिसको उक्त स्थापना द्वारा पहले से अपनाया गया है , के अधीन नहीं रहते और योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को किसी भी तरह से कम किए जाने पर छूट को रद्द किया जा सकता है ।
10. यदि बिना किसी कारण के भारतीय जीवन बीमा द्वारा नियत तिथि के भीतर नियोक्ता बीमा किस्त आदि का भुगतान न कर सके तथा पॉलिसी समाप्त की जाए तो छूट को रद्द किया जा सकता है ।
11. यदि नियोक्ता द्वारा बीमा किस्त के भुगतान में चूक होने पर मृत सदस्य जो उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त किया जा सकता था परंतु छूट देने के कारण उसके नामिति( यों ) , विधिक वारिस( सों ) को बीमा लाभों के भुगतान का दायित्व नियोक्ता का होगा ।
12. सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम मृत सदस्य के नामिति ( यों ) तथा विधिक वारिस ( सों ) जो बीमाकृत राशि के हकदार है को उस राशि को तथा किसी भी हाल में सभी प्रकार से पूर्ण दावों के प्राप्त होने के एक माह के भीतर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें ।

एन. ए. नायर

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त  
कृते तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

क्रम सं	पूर्व अधिसूचना नंबर तथा दिनांक	क्षे.का. / उ.क्षे.का.	कोड नंबर	स्थापना का नाम	छूट की अवधि	
					से	को
1	2	3	4	5	6	7
1	सं.2/1959/इ.डी.एल. आई./छूट /89/ पार्ट 1 / 5419 दिनांक : 09.03.2007	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन/ 49694	सथरलैंड ग्लोबल सर्विसस (प्रा.) लि.मि. चेन्नै 4	01.03.06	28.02.09
2	---	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन / 23275	जॉर्ज टाऊन कोऑपरेटीव मिनी सुपर मार्केट , चेन्नै 79	24.06.06	23.06.09
3	2/1959/इ.डी.एल.आई./छूट/ 89/पार्ट 1 /1025 दिनांक : 02.08.2002	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन / 48820	डी.एस.एम. इंफोसिस्टम ( प्रा.) लि.मि. , चेन्नै 20	01.03.04	31.07.07
4	---	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन/ 49002	सोल्यूशन नेट इंडिया ( प्रा.) लि.मि. ,चेन्नै 35	01.05.04 01.05.07	30.04.07 30.04.10
5	---	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन / 31055	न्यूमेरिक इजिनियर्स , न्यूमेरिक हाऊस , मैलापुर , चेन्नै 4	01.11.01 01.11.04	31.10.04 31.10.05
6	---	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन/ 48426	क्युनटेगरा सोल्यूशन्स लि.मि., चेन्नै 18	01.09.04 01.04.07	31.08.06 31.03.09
7	---	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन/ 26383	जेनलाइट डीसेल्स , चेन्नै 1	01.01.06	31.12.08

8	2/1959/ई.डी.एल. आई./छूट /89/ पार्ट 1 / 1025 दिनांक : 02.08.2002	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन/ 48028	डानफॉस इंडस्ट्रियल ( प्रा.) लि.मि. , चेन्नै 119	01.01.04 01.01.07	31.12.06 31.12.09
9	2/1959/ई.डी.एल.आई./छूट / 89 / पार्ट 1 / 1417 दिनांक : 29.12.2004	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन / 30816	एसपियम प्लास्टिक ( प्रा.) लि.मि. , कुप्पम , चेन्नै 96	24.06.06	23.06.09
10	2/1959/ई.डी.एल.आई./छूट/ 89/पार्ट 1 /5419 दिनांक : 09.03.2007	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन / 40081	गिरि ट्रेडिंग एजेन्सी ( प्रा.) लि.मि. , मैलापुर , चेन्नै 4	01.12.06	30.11.09
11	2/1959 / ई.डी.एल.आई./छूट /89/ पार्ट 1 / 1417 दिनांक 29.12.2004	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन/ 30246	टस्कर ट्रावल्स ( प्रा.) लि.मि. , चेन्नै 10	24.06.06	23.06.09
12	---	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन / 5011- ए	मैक - नेल्स कन्टेनर लाइन्स ( प्रा.) लि.मि. , चेन्नै 10	01.01.06 01.01.09	31.12.08 31.12.11
13	---	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन/ 51305	कुयबस रिसोर्सस इंडिया ( प्रा.) लि.मि. , चेन्नै 34	01.10.06	30.09.09
14	2/1959/ई.डी.एल.आई./छूट / 89 / पार्ट 1 / 5419 दिनांक : 09.03.2007	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन/ 49306	कोवन्टा सामलपट्टी ऑपरेटिंग प्राइवेट लि.मि. , चेन्नै 90	01.03.08	28.02.11
15.	---	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन / 48699	क्यू.पी.आर.ओ. इंफोटेक लिमि.,छोना सेंटर , चेन्नै 6	01.09.06	31.08.08
16.	---	क्षे.का. , चेन्नै	टी.एन / 49508	वी.एस.एल. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड , चेन्नै 96	01.02.04 01.02.07	31.01.07 31.01.10

17	---	क्ष.का. , चेन्नै	टी.एन/ 49843	जी.आर.टी. टेम्पल बे , मामल्लपुरम 603 104	01.06.04 01.06.07	31.05.07 31.05.10
18	---	क्ष.का. , चेन्नै	टी.एन / 40308	पुमाटेक सर्विसस (प्रा.) लि.मि. , सैदापेट , चेन्नै 15	01.03.06	28.02.09
19	2/1959/ई.डी.एल.आई./छूट/ 89/पार्ट I / 991दिनांक : 07.05.2002	क्ष.का. , चेन्नै	टी.एन / 31403	ब्रीज होटल लिमि. , चेन्नै 10	24.06.03 24.06.06	23.06.06 23.06.09
20	---	क्ष.का. , चेन्नै	टी.एन/ 36915	हबोनिम वास ऑटोमेशन प्राइवेट लिमि. कन्दनचावडी , चेन्नै 96	01.12.01 01.12.04 01.12.07	30.11.04 30.11.07 30.11.10
21	---	क्ष.का. , चेन्नै	टी.एन / 48509 - ए	निपा केमिकेल्स लिमि., चेन्नै 96	01.03.05 01.03.08	28.02.08 28.02.11
22	2/1959/ई.डी.एल.आई./छूट / 89 / पार्ट I / 1417 दिनांक : 29.12.2004	क्ष.का. , चेन्नै	टी.एन/ 16282	फिशर सन्मार लिमि. , 147 , कारपाक्कम विल्लेज , चेन्नै 96	24.06.06	23.06.09
23	2/1959/ई.डी.एल.आई./छूट / 89 / पार्ट I / 1878 दिनांक : 12.01.2004	क्ष.का. , चेन्नै	टी.एन/ 12126	बी.एस. एण्ड बी सेफटी सिस्टम्स (इंडिया) लिमि. चेन्नै 96	24.06.06	23.06.09
24	2/1959/ई.डी.एल.आई./छूट / 89 / पार्ट I / 28802 दिनांक : 01.07.2005	क्ष.का. , चेन्नै	टी.एन / 31674	सिमरैस प्राइवेट लिमिटेड , चेन्नै 119	24.06.06	23.06.09

25	2/1959/ई.डी.एल.आई/छूट / 89 / पार्ट I / 1878 दिनांक : 12.01.2004	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन / 36398	प्लास्टी लाइन्स कीलपॉक चेन्नै 10	24.06.06	31.12.06
26	2/1959/ई.डी.एल.आई/छूट / 89 / पार्ट I / 1878 दिनांक : 12.01.2004	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन/ 36153	विन्लेक्स इडिया प्राइवेट लि.मि., चेन्नै 10	24.06.06	31.10.06
27	---	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन / 52209	कोमाटसु इडिया प्राइवेट लिमिटेड , मैलापुर चेन्नै 4	01.08.07	31.07.08
28	---	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन / 23840	सुपरफिल प्रॉडक्ट्स लिमिटेड , अण्णा सालै , नन्दनम चेन्नै 35	01.10.96 01.10.99 01.10.02 01.10.05 01.10.08	30.09.99 30.09.02 30.09.05 30.09.08 30.09.11
29	---	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन/ 39903	कारवेल शिपिंग सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड , एगमोर चेन्नै 8	01.08.06	31.07.08
30	2/1959/ई.डी.एल.आई/छूट / 89 / पार्ट I / 1878 दिनांक : 12.01.2004	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन / 10653	द मैलापुर हिन्दु पेरमानन्ट फन्ड लिमि., मैलापुर चेन्नै 4	24.06.06	23.06.09
31	2/1959/ई.डी.एल.आई/छूट / 89 / पार्ट I / 991 दिनांक : 07.05.2002	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन/ 16411	सनमार फौन्ड्रीस लिमि. , चेन्नै 600086	01.12.03 01.12.06	30.11.06 30.11.09
32	2/1959/ई.डी.एल.आई/छूट / 89 / पार्ट I / 15419 दिनांक : 09.03.2007	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन/ 9569	होटल चोला शेराटन, कतीद्रल रोड , चेन्नै 600086	24.06.06	23.06.09
33	2/1959/ई.डी.एल.आई/छूट / 89 / पार्ट I / 857 दिनांक : 04.09.2001	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन / 23722	एम.टी.एल. इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्राइवेट लिमि., चेन्नै 600 119	01.12.03 01.12.06	30.11.06 30.11.09



34	---	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन / 36219	बिल्डक्रॉफ्ट , अमिजिकरै , चेन्नै 29	01.02.07	31.01.08
35	---	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन/ 50203	मेसर्स चोलमंडलम जेनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड 600 001	01.08.03 01.08.06	31.07.06 31.07.09
36	---	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन / 50516	शूलाइन ईकादुतांगल , चेन्नै 32	01.07.06	30.06.09
37	2/1959/ई.डी.एल.आई./छूट/ 89/पार्ट I / 1025 दिनांक : 02.08.2002	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन / 48572	तोशनी टेक इंटरनेशनल , चेन्नै 600 010	01.10.04 01.10.07	30.09.07 30.09.10
38	---	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन/ 48729	सी.इ.एस ऑनिक्स प्रा. लिमि. अण्णा सालै , चेन्नै 35	01.05.04 01.05.07	30.04.07 30.04.08
39	---	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन / 52483	टी.वी.एस. नेट टेक्नॉलजीस लिमि., पल्लीकरनै , चेन्नै 100	01.01.07	31.12.09
40	---	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन/ 23475	बी.एस. मूथा गर्ल्स सीनियर सेकेन्डरी स्कूल वेस्ट माम्बलम , चेन्नै 33	01.04.03 01.04.06	31.03.06 31.03.09
41	2/1959/ई.डी.एल.आई./छूट / 89 / पार्ट I / 1025 दिनांक : 02.08.2002	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन/ 40916	इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमि., चेन्नै 6000 10	01.10.04 01.10.07	30.09.07 30.09.10
42	2/1959/ई.डी.एल.आई./छूट / 89 / पार्ट I / 25 दिनांक : 02.04.2003	क्षे.का. चेन्नै	टी.एन / 49592	थॉर्न लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमि. , चेन्नै 28	01.03.05 01.03.08	29.02.08 28.02.11

एन. ए. नायर

3—169 GI/2009

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

(तमिलनाडु एवं केरल)

कृते तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 25 जून 2009

सं. क.म.नि / रा.कार्या./अ.कें.आ.( त.नाडु एवं केरल )/ मि.सं. के.आर./02/2009  
 दिनांक : 25.06.2009 ..... जहाँ अनुसूची - 1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है ( कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ) 1952 का 19 ( की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहा है जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है ( जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है )।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2 ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार / केन्द्रीय सरकार / केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है , के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची - 11 की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है ( जैसा कि संलग्न अनुसूची एक में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ) ।

सं. क.म.नि / रा.कार्या./अ.कें.आ.( त.नाडु एवं केरल )/ मि.सं. के.आर./02/2009

सा.का. .... जहाँ अनुसूची - 1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का नियम 19 ) की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है ( जिसे इसमें इसके पश्चात योजना कहा गया है ) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त , चेन्नै ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत डील प्रदान की है , तीन वर्ष की अवधि के लिए संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है ।

**अनुसूची - II**

1. उक्त स्थापना के संबंध में प्रत्येक नियोक्ता ( जिसे इसके पश्चात नियोक्ता कहा गया ) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समय - समय पर निर्दिष्ट ऐसी विवरणियों संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजेंगे तथा ऐसी राशि रखेंगे तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेंगे ।
2. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा ( 2 क ) के खण्ड ( क ) के अंतर्गत समय - समय पर निर्दिष्ट ऐसे निरीक्षण प्रभार प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के भीतर भुगतान करेंगे ।
3. लेखाओं का रखरखाव , रिटर्न प्रस्तुत करना , बीमा किस्तों का भुगतान , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभार के भुगतान सहित सामूहिक बीमा योजना में सम्मिलित प्रशासन संबंधी सभी व्ययों को नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा ।
4. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार / केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अनुमोदित तथा यथासंशोधित एवं अधिकांश कर्मचारियों की भाषा में उसके प्रमुख बातों के अनुवाद सहित सामूहिक बीमा योजना के नियमों की प्रति स्थापना के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे ।
5. यदि कोई कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त स्थापना की भविष्य निधि के पहले से ही सदस्य है और उनकी स्थापना में नियोजित किया जाता है नियोक्ता उन्हें तत्काल सामूहिक बीमा योजना का सदस्य बनाकर भारतीय जीवन बीमा निगम को उसकी आवश्यक किस्त का भुगतान करेंगे ।
6. यदि उक्त योजना के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में वृद्धि की जाती है तो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों में वृद्धि की व्यवस्था करेंगे जिसमें उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से भी सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ अधिक अनुकूल होंगे ।
7. सामूहिक बीमा योजना में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर योजना के अंतर्गत देय राशि कर्मचारियों को उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त करने पर देय राशि से कम हो तो नियोक्ता , शेष भुगतान राशि कर्मचारी के नामित( यों ) विधिक वारिस ( सों ) को हरजाने के रूप में भुगतान करेंगे ।
8. संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना सामूहिक बीमा योजना के प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा जहाँ किसी भी संशोधन से कर्मचारी के पक्ष में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को उनका दृष्टिकोण समझाने का यथोचित अवसर देंगे ।
9. अतः किसी कारणवश उक्त स्थापना के नियोक्ता भारतीय जीवन बीमा निगम के सामूहिक बीमा योजना के , जिसको उक्त स्थापना द्वारा पहले से अपनाया गया है , के अधीन नहीं रहते और योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को किसी भी तरह से कम किए जाने पर छूट को रद्द किया जा सकता है ।
10. यदि बिना किसी कारण के भारतीय जीवन बीमा द्वारा नियत तिथि के भीतर नियोक्ता बीमा किस्त आदि का भुगतान न कर सके तथा पॉलिसी समाप्त की जाए तो छूट को रद्द किया जा सकता है ।
11. यदि नियोक्ता द्वारा बीमा किस्त के भुगतान में चूक होने पर मृत सदस्य जो उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त किया जा सकता था परंतु छूट देने के कारण उसके नामित( यों ) , विधिक वारिस( सों ) को बीमा लाभों के भुगतान का दायित्व नियोक्ता का होगा ।
12. सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम मृत सदस्य के नामित ( यों ) तथा विधिक वारिस ( सों ) जो बीमाकृत राशि के हकदार हैं को उस राशि को तथा किसी भी हाल में सभी प्रकार से पूर्ण दावों के प्राप्त होने के एक माह के भीतर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें ।

एन. ए. नायर  
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त  
(तमिलनाडु एवं केरल)  
कृते तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त


1.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं ./मि.स.240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र का कोची	कें.आर/ 15483	पसिफिक अग्रो टेक प्राइवेट लिमि., गिरिनगर, कोची 682020	01.03. 2007	28.02. 2010
2.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं ./मि.स.240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र का कोची	कें.आर/ 15173	बॉडीगियर इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमि., अलुवा 683 110	01.12. 2008	30.11. 2011
3.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं ./मि.स.240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र का कोची	कें.आर/ 10333	पॉपुलर वेहिकल्स एण्ड सर्विसस लि.मि.	01.12. 2006	30.11. 2009
4.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं ./मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोची	कें.आर. / 169	द ट्रावनकोर कोचिन केमिकल्स लि.मि., कोची	01.06. 2008	31.05. 2011
5.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं ./मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोची	कें.आर. / 1090	ताज मलबार ऐलैंड कोची	01.04. 2008	31.03. 2011
6.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं ./मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोची	कें.आर / 10927	जैकसन्स वेनीस एण्ड पैनल्स (प्रा) लि.मि., कोची 15	01.03. 2008	28.02. 2011
7.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं ./मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोची	कें.आर. / 10945	एम.आई.एल कन्ट्रोल्ल्स लि.मि., मैलाडूर पो.बो. त्रिचूर	01.12. 2008	30.11. 2011

8.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कै.आ/द.अ. /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोची	के.आर / 12062	टी.ओ.सी. एच. पब्लिक स्कूल, वित्तिला, कोची 682 019	01.01. 2009	31.12. 2011
9.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कै.आ/द.अ. /मि.स.240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र का कोची	के.आर / 13018	डैनामिक टेकनो मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड अलुवा 683 101	01.09. 2004 01.09. 2007	31.08. 2007 31.10. 2010
10.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कै.आ/द.अ. /मि.स.240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र का कोची	के.आर / 13233	द कोडुनाल्लूर टाउन कोऑप बैंक लि.मि. 680 664	01.04. 2006	31.03. 2009
11.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कै.आ/द.अ. /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोची	के.आर / 13443	सन फैबर ऑप्टिक्स प्राइवेट लि.मि., कक्कानड कोची 37	01.06. 2008	31.05. 2011
12.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कै.आ/द.अ. /मि.स.240/2007/ 1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र का कोची	के.आर. / 13817	डेल्टा मैक्रो कम्प्यूटर्स (प्रा.) लि.मि. कोची 682 015	01.08. 2007	31.07. 2010
13.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कै.आ/द.अ. /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोची	के.आर. / 13868	विद्योदया स्कूल तेक्कल कोची 682 021	01.07. 2008	30.06. 2011
14.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कै.आ/द.अ. /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोची	के.आर. / 15039	संगीत नरसिंग होम कोची 2	01.06. 2008	31.05. 2011
15.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कै.आ/द.अ. /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोची	के.आर. / 15291	बेबी मरैन इन्टरनेशनल थोपुमपडी कोची	01.08. 2008	31.07. 2011

16.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोची	के.आर. / 15479	कडविल एलेक्ट्रो मेकानिकल इंडस्ट्रीस 683 547	01.10. 2008	30.09. 2011
17.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं /मि.स.240/2007/ 1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र का कोची	के.आर. / 15771	वेजिटबल एण्ड फ्रूट प्रमोशन कौंसिल कोची	01.04. 2008	31.03. 2011
18.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोची	के.आर. / 19160	कार्गोमार ,वे. ऐलेण्ड , कोची 3	01.12. 2008	30.11. 2011
19.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोची	के.आर. / 19161	कार्गोमार ,वे. ऐलेण्ड , कोची 3	01.12. 2008	30.11. 2011
20.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोची	के.आर./ 19298	यू.ए.ई. एक्सचेंज एण्ड फैनान्शियल सर्विसस लि.मि. कोची 682 011	01.11. 2008	31.10. 2011
21.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोची	के.आर./ 21192	यू.ए.ई. एक्सचेंज एण्ड फैनान्स लि.मि. कोची 682 011	01.11. 2008	31.10. 2011
22.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोषि - क्कोड	के.आर. / 11419	होटल इन्द्रप्रस्था , पालक्काड , 687 001	01.11. 2008	31.10. 2011
23.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं /मि.स.240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र का कोषि - क्कोड	के.आर. / 405	वीके टी कम्पनी (प्रा.) लि.मि. पालक्काड 678 511	01.05. 2008	30.04. 2011
24.		उप क्षेत्र का कोषि - क्कोड	के.आर. / 1920	कोषिक्कोड डि.कोऑप बैंक लि.मि. कोलिकट	01.04. 2006	31.03. 2009

25.		उप क्षेत्र का कोषि - क्कोड	के.आर. / 17691	अमना टोयोटा वी.पी.के. मोटर्स (प्रा.) लि.मि. , कालिकट	01.03. 2008	28.02. 2011
26.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोषि - क्कोड	के.आर. / 11744	मिराकल रबड़ ( प्रा.) लि.मि. , मल्लपुरम 679 322	01.12. 2008	30.11. 2011
27.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोषि - क्कोड	के.आर. / 14426	मिराकल इलास्टोमर (इं) लि.मि., मल्लपुरम 679 322	01.12. 2008	30.11. 2011
28.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोषि - क्कोड	के.आर. / 11352	द कोषिक्कोड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हॉस्पिटल	01.01. 2009	31.12. 2011
29.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोषि - क्कोड	के.आर. / 17895	डयाडोरा शूरा (प्रा) लि.मि. मल्लपुरम 673 634	01.03. 2009	28.02. 2012
30.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोषि - क्कोड	के.आर. / 14669	आलाप्पाट फूड प्रॉडक्ट्स , इरनहियलम 673 020	01.08. 2008	31.07. 2011
31.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोषि - क्कोड	के.आर. / 2152	केरल सर्वोदया संघ कोषिक्कोड 673 020	01.01. 2009	31.12. 2011
32.	आ.प्र/क.म.नि.सं/अ.कें.आ/द.अं /मि.स.240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र का कोषि - क्कोड	के.आर. / 14484	वर्कस बेकरी एण्ड सूपर मार्केट कोषिक्कोड	01.08. 2008	31.07. 2011

33.	----	उप क्षेत्र का कोट्टयम	के.आर./ 10571	लियो रबर्स , चाल्लकण्णु , कोट्टयम 686 001	01.03. 1998 01.03. 2001 01.03. 2004 01.03. 2007	28.02. 2001 28.02. 2004 28.02. 2007 28.02. 2010
34.	---	उप क्षेत्र का कोट्टयम	के.आर./ 5206	पेरागॉन रबड इंडस्ट्रीस , कोट्टयम 686 001	01.03. 1998 01.03. 2001 01.03. 2004 01.03. 2007	28.02. 2001 28.02. 2004 28.02. 2007 28.02. 2010
35.	---	उप क्षेत्र का कोट्टयम	के.आर. / 9989	एम.आर.एफ . लिमिटेड , वडवत्तूर पोस्ट कोट्टयम	01.11. 2006	31.10. 2009



( एन. ए. नायर )

अपर केन्द्रीय म.नि. आयुक्त

( तमिलनाडु एवं केरल )

कृते तथा केन्द्रीय म.नि. आयुक्त ,



## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 16th June 2009

No. **N-15/13/1/16/2008-P&D** : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1<sup>st</sup> June, 2009** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Andhra Pradesh** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Andhra Pradesh** namely:-

"ALL THE AREAS FALLING WITHIN THE MUNICIPAL LIMITS OF DHARMAVARAM OF ANANTHAPUR DISTRICT IN ANDHRA PRADESH."

R. C. SHARMA  
Joint Director (P&D)

The 17th June 2009

No. **N-15/13/1/6/2008-P&D** : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1<sup>st</sup> July, 2009** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Andhra Pradesh** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Andhra Pradesh** namely:-

"ALL THE AREAS FALLING WITHIN THE REVENUE VILLAGES OF RACHAGUNNERI, KAPUGUNNERI, CHERLAPALLE, CHELLAPALEM, URUNDUR, MADDILEDU, ISUKAGUNTA, AMMAPALEM, PULLAREDDY KANDRIGA, CHUKKALA, NIDIGALLU, NARAYANAPURAM, T.M.V. KANDRIGA OF SRIKALAHASTHI MANDAL, MERLAPAKA OF YERPADU MANDAL AND THANGELLAPALAM, PEDDAKANNABI, SAMBAIAHPALEM, BASAVIAHPALEM, CHETTATHUR OF THOTTAMBEDU MANDAL IN CHITTOOR DISTRICT OF ANDHRA PRADESH."

R. C. SHARMA  
Joint Director (P&D)

No. **N-15/13/16/01/2009-P&D** : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1<sup>st</sup> July, 2009** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Haryana** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1955** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Haryana** namely:-

SL. NO.	REVENUE VILLAGE	HAD BAST NO.	DISTRICT
1.	BILASPUR	146	GURGAON
2.	PATHRARI	143	GURGAON
3.	BAHORA KALAN	134	GURGAON
4.	CHOMA	62	GURGAON
5.	DHUMASPUR	86	GURGAON
6.	SIDHRAWALI	139	GURGAON

R. C. SHARMA  
Joint Director (P&D)

Jaipur, the 5th June 2009

No. S. No. 15/U/11/PTMR-APP./SMC/08 in pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-04-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide H.Q. Letter No. pt File No. U-13/12/13/2005-Med-1/PTMR dated 09-09-08. I hereby authorize the following doctors to function as Medical Referee at a monthly remuneration in according with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Jaipur (Rajasthan) for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

NAME of Dr.	PERIOD	NAME OF CENTER
Dr. Umesh Chittora M. S., E.S. I. Hospital, Kota	10.06.2009 to 09.06.2010	<b>Kota</b>
		<b>Bhawani Mandi</b>

Dr. J. L. Gargia, Distt. R.C. H. O., Ajmer	10.06.2009 to 09.06.2010	<b>Ajmer</b>
		<b>Gulabpura</b>
		<b>Kishangarh</b>
		<b>Beawar</b>
Dr. Pradeep Gupta, Senior Medical Officer & Coordinator, E.S.I. Mini Hospital, Bhiwadi (Alwar)	10.06.2009 to 09.06.2010	<b>Bhiwadi</b>
		<b>Alwar</b>
		<b>Behror</b>

NISHA DHINGRA  
State Medical Commissioner, Jaipur

Chennai-600014, the 23rd June 2009

No.EPF/SO/ACC(TN&KR)/F.No.TN/01/2009

..... Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule – I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub Section 2(A) of Section 17 of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the respective Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 19765 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. Of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C Notification No. and dated shown against the name of each of the said establishment from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule – I against their names.

No.EPF/SO/ACC(TN&KR)/F.No.TN/01/2009 ..... whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19of 1952) herein after referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the respective Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner concerned from the operation of the said scheme for a period of 3 (three) years.

#### **SCHEDULE-II**

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional P.F. Commissioner concerned and maintain such amount and provide such facilities for inspection, as the Central P.F. Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such Inspection charges as the Central Govt. May from time to time, direct under clause (A) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.
5. Where as an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the respective Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
7. Notwithstanding anything contained the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.
9. Therefore any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the respective Life Insurance Corporation of India as a ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the respective Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the respective Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) and Legal Heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect

N. A. NAIR

Additional Central P. F. Commissioner  
for and on behalf of Central P. F. Commissioner

## SCHEDULE (1)

Sl. No	PREVIOUS NOTIFICATION	RO/SRO	CODE NO.	NAME OF THE ESTABLISHMENT	PERIOD OF EXEMPTION	
					FROM	TO
1	2	3	4	5	6	7
1	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/5419 dated 9.3.2007	RO-Chennai	TN/49694	Sutherland Global Services (P)Ltd., Chennai 4	01.03.2006	28.02.2009
2	--	RO-Chennai	TN/23275	George Town Co-Operative Mini Super Market, Chennai	24.06.2006	23.06.2009
3	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1025 dated 02.08.2002	RO-Chennai	TN/48820	DSM Infosystem (P) Ltd. Chennai 20	01.03.2004	31.07.2007
4		RO-Chennai	TN/49002	Solution NET India (P) Ltd. Chennai 35	01.05.2004 01.05.2007	30.04.2007 30.04.2010
5	--	RO-Chennai	TN/31055	Numeric Engineers, Numeric House, Chennai 4	01.11.2001 01.11.2004	31.10.2004 31.10.2005
6	—	RO-Chennai	TN/48426	Quintegra Solutions Ltd. Chennai 18	01.09.2004 01.04.2007	31.08.2006 31.03.2009
7	--	RO-Chennai	TN/26383	Genlite Diesels, Chennai 1	01.01.2006	31.12.2008
8	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1025 dated 02.08.2002	RO-Chennai	TN/48028	Danfoss Industrial (P) Ltd., Chennai 119	01.01.2004 01.01.2007	31.12.2006 31.12.2009
9	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1417 dated 29.12.2004	RO-Chennai	TN/30816	Espiem Plastic (P) Ltd. Kuppam, Chennai 96	24.06.2006	23.06.2009
10	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/5419 dated 9.3.2007	RO-Chennai	TN/40081	Giri Trading Agency (P) Ltd Mylapore, Chennai 4	01.12.2006	30.11.2009
11	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1417 dated 29.12.2004	RO-Chennai	TN/30246	Tusker Travels (P) Ltd. Chennai 10	24.06.2006	23.6.2009
12	—	RO-CHN	50011A	MAC-NELS Container Lines (P) Ltd. Chennai 1	01.01.2006 01.01.2009	31.12.2008 31.12.2011
13	—	RO-CHN	TN/51305	Quibus Resources India (P) Ltd., Chennai 34	01.10.2006	30.09.2009
14	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/5419 dated 9.3.2007	RO-CHN	TN/49306	Covanta Samalpatti Operating Pvt.Ltd. Ch-90	01.03.2008	28.02.2011
15	—	RO-CHN	TN/48699	QPRO Infotech Ltd. , Chennai 6	01.09.2006	31.08.2008
16	--	RO-CHN	TN/49508	VSL India Pvt.Ltd Chennai 96	01.02.2004 01.02.2007	31.01.2007 31.01.2010
17	—	RO-CHN	TN/49843	GRT Temple Bay, Maamallapuram 603 104	01.06.2004 01.06.2007	31.05.2007 31.05.2010
18	—	RO-CHN	TN/40308	Prumatech Services (P) Ltd., Saidapet, Chennai 15	01.03.2006	28.02.2009
19	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/991 dated 07.05.2002	RO-CHN	TN/31403	Breeze Hotel Ltd., Chennai 10	24.6.2003 24.06.2006	23.06.2006 23.06.2009

1	2	3	4	5	6	7
20	—	RO-CHN	TN/36915	Habonim Vaas Automation Pvt. Ltd. Chennai 96	01.12.2001 01.12.2004 01.12.2007	30.11.2004 30.11.2007 30.11.2010
21	—	RO-CHN	TN48509A	Nipa Chemicals Ltd., Chennai – 96.	01.03.2005 01.03.2008	28.02.2008 28.02.2011
22	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1417 dated 29.12.2004	RO-CHN	TN/16282	Fisher Sanmar Ltd., 147, Karapakkam Village, Ch-96	24.06.2006	23.06.2009
23	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1878 dated 12.1.2004	RO-CHN	TN/12126	BS & B Safety Systems (India) Limited,	24.06.2006	23.06.2009
24	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/28802/ 01.07.2005	RO-CHN	TN/31674	Symrise Private Ltd., Chennai-119	24.06.2006	23.06.2009
25	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1878 dated 12.1.2004	RO-CHN	TN/36398	Plastilines, Kilpauk, Chennai-10	24.06.2006	31.12.2006
26	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1878 dated 12.1.2004	RO-CHN	TN/36153	Vinplex India P Ltd., Chennai – 10	24.06.2006	31.10.2006
27	—	RO-CHN	TN/52209	Komatsu India Private Ltd., Mylapore, Chennai – 4.	01.08.2007	31.07.2008
28	—	RO-CHN	TN/23840	Superfil Products Limited, Chennai -35.	01.10.1996 01.10.1999 01.10.2002 01.10.2005 01.10.2008	30.09.1999 30.09.2002 30.09.2005 30.09.2008 30.09.2011
29	—	RO-CHN	TN/39903	Caravel Shipping Services Private Limited, Chennai 8.	01.08.2006	31.07.2008
30	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1878 dated 12.1.2004	RO-CHN	TN/10653	The Mylapore Hindu Permanent Fund Lt.d Ch-4	24.06.2006	23.06.2009
31	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/991 dated 07.05.2002	RO-CHN	TN/16411	Sanmar Foundries Ltd, Chennai 600086	01.12.2003 01.12.2006	30.11.2006 30.11.2009
32	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/5419 dt.9.3.2007	RO-CHN	TN/9569	Hotel Chola Sheraton, , Chennai 86	24.06.2006	23.06.2009
33	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/857 date 04.09.2001	RO-CHN	TN/23722	MTL Instruments Pvt Ltd., , Chennai 600119	01.12.2003 01.12.2006	30.11.2006 30.11.2009
34	—	RO-CHN	TN/36219	BuildCraft, Chennai 29	01.02.2007	31.01.2008
35	—	RO-CHN	TN/50203	Cholamandalam General Insurance Co. Ltd, Chennai-	01.08.2003 01.08.2006	31.07.2006 31.07.2009
36	—	RO-CHN	TN/50516	Shoeline, , Ekkattuthangal, Ch – 32	01.07.2006	30.06.2009
37	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1025 dated 02.08.2002	RO-CHN	TN/48572	Toshni-Tek International, Chennai 600010	01.10.2004 01.10.2007	30.09.2007 30.09.2010
38	—	RO-CHN	TN/48729	C.E.S Onyx P Ltd., Chennai-35	01.05.2004 01.05.2007	30.04.2007 30.04.2008

1	2	3	4	5	6	7
39	—	RO-CHN	TN/52483	TVS Net Technologies Limited, Chennai- 100	01.01.2007	31.12.2009
40	—	RO-CHN	TN/23475	B.S. Mootha Girls Senior Secondary School, Chennai	01.04.2003 01.04.2006	31.03.2006 31.03.2009
41	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/1025 dated 02.08.2002	RO-CHN	TN/40916	Electro Optics Pvt. Ltd., Chennai 10	01.10.2004 01.10.2007	30.09.2007 30.09.2010
42	2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/25 dated 02.04.2003	RO-CHN	TN/49592	Thorn Lighting India Pvt Ltd. Chennai-28.	01.03.2005 01.03.2008	29.02.2008 28.02.2011

N. A. NAIR

Additional Central P. F. Commissioner

(Tamil Nadu &amp; Kerala)

for and on behalf of Central P. F. Commissioner

MINISTRY OF LABOUR  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Chennai-600014, the 25th June 2009

No.EPF/SO/ACC(TN&amp;KR)/F.No.KR/02/2009

..... Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule – I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub Section 2(A) of Section 17 of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the respective Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 19765 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. Of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C Notification No. and dated shown against the name of each of the said establishment from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule – I against their names.



No.EPF/SO/ACC(TN&KR)/F.No.KR/02/2009 ..... whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19of 1952) herein after referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the respective Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner concerned from the operation of the said scheme for a period of 3 (three) years.

#### **SCHEDULE-II**

13. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional P.F. Commissioner concerned and maintain such amount and provide such facilities for inspection, as the Central P.F. Commissioner may direct from time to time.
14. The employer shall pay such Inspection charges as the Central Govt. May from time to time, direct under clause (A) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
15. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
16. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.
17. Where as an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the respective Life Insurance Corporation of India.

18. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
19. Notwithstanding anything contained the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.
20. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.
21. Therefore any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the respective Life Insurance Corporation of India as a ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
22. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the respective Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
23. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
24. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the respective Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) and Legal Heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

N. A. NAIR

Additional Central P. F. Commissioner  
for and on behalf of Central P. F. Commissioner

## SCHEDULE - I

Sl. No	PREVIOUS NOTIFICATION	RO/SRO	CODE NO.	NAME OF THE ESTABLISHMENT	FROM	TO
1	2	3	4	5	6	7
1	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2007/1357 dt.22.03.2008	SRO-KC	KR/15483	Pacific Agro Tech Pvt. Ltd. Girinagar, Kochi 682020	01.03.2007	28.02.2010
2	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2007/1357 dt.22.03.2008	SRO-KC	KR/15173	Bodygear International Pvt Ltd., , Aluva - 683110	01.12.2008	30.11.2011
3	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2007/1357 dt.22.03.2008	SRO-KC	KR/10333	Popular Vehicles & Services Ltd	01.12.2006	30.11.2009
4	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KC	KR/169	The Travancore Cochin Chemicals Ltd., . Kochi	01.06.2008	31.05.2011
5	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KC	KR/1090	Taj Malabar, W/Island, Kochi	01.04.2008	31.03.2011
6	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KC	KR/10927	Jacsons Veneers & Panels Pvt. Ltd., , Kochi 15	01.03.2008	28.02.2011
7	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KC	KR/10945	MIL Controls Ltd., Meladoor P.O. Trichur	01.12.2008	30.11.2011
8	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KC	KR/12062	Toc H Public School, Vyttila, Kochi-682019	01.01.2009	31.12.2011
9	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2007/1357 dt.22.03.2008	SRO-KC	KR/13018	Dynamic Techno Medical Pvt. Ltd., , Aluva 683101	01.09.2004 01.09.2007	31.08.2007 31.10.2010
10	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2007/1357 dt.22.03.2008	SRO-KC	KR/13233	The Kodungallur Town Co-Op Bank Ltd 680664	01.04.2006	31.03.2009
11	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KC	KR/13443	Sun Fibre Optics Pvt. Ltd., Kakkannad, Kochi - 37.	01.06.2008	31.05.2011
12	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2007/1357 dt.22.03.2008	SRO-KC	KR/13817	Delta Micro Computers (P) Ltd., , Kochi-682015	01.08.2007	31.07.2010
13	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KC	KR/13868	Vidyodaya School, Thevakkal, Kochi 682021	01.07.2008	30.06.2011
14	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KC	KR/15039	Sangeeth Nursing Home , Kochi -2.	01.06.2008	31.05.2011
15	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KC	KR/15291	Baby Marine International Thoppumpady Kochi	01.08.2008	31.07.2011
16	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KC	KR/15479	Kadavil Electro Mechanical Industries, 683547	01.10.2008	30.09.2011
17	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/2007/1357 dt.22.03.2008	SRO-KC	KR/15771	Vegetable and Fruit Promotion Council Kochi	01.04.2008	31.03.2011

1	2	3	4	5	6	7
18	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KC	KR/19160	Cargomar, , W/Island, Kochi-3	01.12.2008	30.11.2011
19	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KC	KR/19161	Cargomar, W/Island, Kochi	01.12.2008	30.11.2011
20	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KC	KR/19298	UAE Exchange & Financial Services Ltd Kochi 682011	01.11.2008	31.10.2011
21	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KC	KR/21192	UAE Exchange & Finance Ltd., Kochi-682011	01.11.2008	31.10.2011
22	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KK	KR/11419	Hotel Indraprastha, Palakkad 678001	01.11.2008	31.10.2011
23	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2007/1357 dt.22.03.2008	SRO-KK	KR/405	Veekay Tea Company (P) Ltd., Palakkad 678511	01.05.2008	30.04.2011
24	—	SRO-KK	KR/1920	Kozhicode Dt. Coop Bank Ltd. Calicut	01.04.2006	31.03.2009
25	—	SRO-KK	KR/17691	Amana Toyota VPK Motors (P) Ltd Calicut	01.03.2008	28.02.2011
26	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KK	KR/11744	Miracle Rubber (P) Ltd., Malapuram 679322	01.12.2008	30.11.2011
27	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KK	KR/14426	Miracle Elastomer (I) Ltd., Malapuram 679322	01.12.2008	30.11.2011
28	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KK	KR/11352	The Kozhikode District Co- Operative Hospital,	01.01.2009	31.12.2011
29	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KK	KR/17895	Diadora Shoes (P) LtdMalapuram 673634	01.03.2009	28.02.2012
30	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KK	KR/14669	Alappat Food Products , Eranhialam 673020	01.08.2008	31.07.2011
31	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KK	KR/2152	Kerala Sarvodaya Sangh, Kozhikode 673020	01.01.2009	31.12.2011
32	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ 2006/5419 dt.31.03.2007	SRO-KK	KR/14484	Varkey's Bakery & Supermarket , Kozhikode	01.08.2008	31.07.2011
33	—	SRO-KTM	KR/10571	Leo Rubbers, Chalukunnu, Kottayam 686001	01.03.1998 01.03.2001 01.03.2004 01.03.2007	28.02.2001 28.02.2004 28.02.2007 28.02.2010
34	—	SRO-KTM	KR/5206	Paragon Rubber Industries, Kottayam 686001	01.03.1998 01.03.2001 01.03.2004 01.03.2007	28.02.2001 28.02.2004 28.02.2007 28.02.2010
35	—	SRO-KTM	KR/9989	M.R.F. Ltd., Vadavathoor Post Kottayam	01.11.2006	31.10.2009

N. A. NAIR

Additional Central P. F. Commissioner (TN & KR)  
for and on behalf of Central P. F. Commissioner